



प्रेस नोट – थाना बाबूपुरवा, कानपुर नगर ।

दिनांक 28.01.2021

श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर नगर के द्वारा कानपुर नगर मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक दक्षिण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बाबूपुरवा पुलिस को काफी समय से थाना बिल्हौर व शिवराजपुर से ट्रक लूट व गैंगेस्टर के मुकदमों में वाछिंत एवं 25000 रुपये की राशि से पुरस्कार घोषित अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुयी है । उक्त अपराधी बेहद ही सातिर किस्म का ट्रक लुटेरा है जो अपने गैंग मेम्बरो / सहयोगियों की मदद से जनपद कानपुर नगर. रायबरेली, प्रयागराज, सुल्तानपुर , कौशम्बी आदि में ट्रक लुट की घटनाओ को अन्जाम देता था । उक्त गिरोह जिसका सरगना इसका सगा बड़ा भाई अकील है, बेहद ही शातिराना तरीके से सड़क किनारे या ढाबो आदि में रात्रि में ट्रक खड़ा करके सो रहे ट्रक चालको से मार पीट कर ट्रक सहित उन्हे कब्जे में लेते थे और आगे जाकर ट्रक चालक को मार-पीट कर फेंक देते थे व ट्रक सहित फरार हो जाते थे । लूटे गये ट्रक को जनपद सम्भल, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद आदि जनपदों में अपने सहयोगियों के यहाँ खड़ा कर उसी बॉडी व रंग रोगन आदि में परिवर्तन कर उसे ऐसा बना देते थे कि मूल स्वामी पहचान न सके ।

तदोपरान्त सितारगंज, उत्तराखण्ड राज्य निवासी अपने सहयोगी फरमान हुसैन की मदद से नागालैण्ड राज्य के डिस्पोज्ड आफ वाहनो के कागजाद के अनुसार उनके चेचिस व इंजन नम्बरो को लूटे गये वाहनो में रांगे की मदद से लगा देते थे , तत्पश्चात उन वाहनो को उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में नये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते थे, तथा RTO कार्यालय में साठ गाँठ के चलते NOC लेकर धडल्ले से वाहन बेच देते थे ।

अगस्त 2019 में जनपद कानपुर नगर पुलिस की सर्विलांश टीम व थाना बिल्हौर व शिवराजपुर की सयुक्त टीम द्वारा इस गिरोह का भण्डाफोड़ किया गया था और जनपद से लूटे गये 03 ट्रको की बरामदगी सहित उनके साथियों सहित जेल भेजा गया था । उक्त अभियुक्त तभी से उक्त अभियोग में वाछिंत था । जिसे आज थाना बाबूपुरवा पुलिस द्वारा दिनांक 27.01.2021 को शाम चेंकिंग के दौरान यशोदा नगर बाई पास रोड पर केसा के आगे से 17:45 बजे 01 अदद नाजायज तंमचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व मोटर साइकिल पैशन प्लस UP 78 BP 1436 के साथ गिरफ्तार किया गया है, विवरण निम्नवत है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

सूफियान पुत्र स्व0 मो0 इदरीश निवासी ग्राम अन्साव थाना सांगीपुर जिला प्रतापगढ़ उम्र लगभग 25 वर्ष ।



➤ बरामदगी

- 1 .01 अदद तंमचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस
- 2.मोटर साइकिल पेशन प्लस संख्या UP 78 BP 1436

➤ गैंग मेम्बर /सहयोगियों के नाम- पते

1. अकील पुत्र मो0 इदरीस निवासी ग्राम असांव थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ
2. शकील पुत्र मो0 इदरीस निवासी ग्राम असांव थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ
3. मुबीन पुत्र मन्सूर निवासी ग्राम असांव थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ
4. हासिम पुत्र हनीफ निवासी चौधरी वाड़ा थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल (HS नं0 396 ए जनपद सम्भल)
5. मो0 हफीज खाँ उर्फ डा0 कालिया पुत्र हनीफ खाँ निवासी कस्बा व थाना शेरगढ़ जनपद बरेली ।
6. फरमान हुसैन पुत्र राहत हुसैन निवासी वार्ड नं0 8 रमपुरा कस्बा व थाना सितारगंज जनपद उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड राज्य)

➤ अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 466/2019 धारा 394/411/420/467/468/471 भादवि थाना बिल्हौर कानपुर नगर ।
2. मु0अ0सं0 515/2019 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना बिल्हौर कानपुर नगर ।
3. मु0अ0सं0 105/2019 धारा 394/411/420/467/468/471 भादवि थाना शिवराजपुरा कानपुर नगर
4. मु0अ0सं0 94/2016 धारा 147/504/506/452 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ ।
5. मु0अ0सं0 54/2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ।
6. मु0अ0सं0 205/2015 धारा 307 भादवि थाना सांगी पुर प्रतापगढ ।
7. मु0अ0सं0 246/2017 धारा 392/411 भादवि थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली।
8. मु0अ0सं0 192/2018 धारा 41/411/413/420/467/468 भादवि थाना कोतवाली नगर रायबरेली (लूट के 06 अदद ट्रक बरामद)
9. मु0अ0सं0 315/2018 धारा 392/411 थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज ।
- 10.मु0अ0सं0 235/2017 धारा 392/411 थाना धम्मौर जनपद सुल्तानपुर।
- 11.मु0अ0सं0 24/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर।
- 12.मु0अ0सं0 25/2021 धारा 41/411 भादवि थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर ।
- 13.अन्य थानाजात व अन्य जनपदो से जानकारी की जा रही है

➤ गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक जनार्दन प्रताप सिंह थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर
2. उ०नि० श्री प्रदीप कुमार यादव थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर
3. का० चालक देवेन्द्र कुमार सिंह थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर
4. हे०का० 1822 रवि कुमार थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर
5. हे०का० 1758 प्रदीप कुमार परिहार थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर
6. का०2878 विकास कुमार थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर
7. का०1781 कौशिन्द्र कुमार थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर